

Roll No.

Printed Pages : 3

21083

BCQ / A-18
INDIRECT TAXES

Paper-V-(iv)

Time allowed : 3 hours]

[Maximum marks : 80

Note :- Attempt five questions in all, selecting at least one but not more than two questions from each unit. All questions carry equal marks.

नोट :- प्रत्येक इकाई से कम से कम एक और अधिकतम दो प्रश्न चुनते हुए, कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Unit-I (इकाई-I)

1. Explain the following in view of provisions of Central Excise duty:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न का वर्णन करें:

(a) Excisable Goods

उत्पादन शुल्क योग्य माल

(b) Input

आगत

(c) Excise Duty

उत्पाद शुल्क

2. Explain the procedure of central excise to be adopted by a manufacturer.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सम्बन्धित प्रक्रिया जो एक निर्माता को अपनानी होती है, को स्पष्ट करें।

21083

[Turn over

(2)

3. Enumerate the provisions regarding concessions available to small scale industries under Central Excise Act.
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध रियायतों की व्याख्या करें।

Unit-II (इकाई-II)

4. Discuss the meaning, objectives and provisions of Custom Duty. Why Import and Export of Certain goods prohibited?
- सीमा शुल्क का अर्थ, उद्देश्य तथा प्रावधानों का वर्णन करें। कुछ वस्तुओं का आयात एवं निर्यात क्यों निषिद्ध किया गया है?
5. Explain the items includable in determining assessable value under Custom Duty Act.
- सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य की गणना में शामिल की जाने वाली मदों को स्पष्ट करें।
6. Write notes on the following:

निम्न पर टिप्पणी करें:

- (a) Dutiable Goods
शुल्क देय माल
- (b) Letter of credit
साख पत्र
- (c) Import Manifest
आयात प्रकट (सूची)

21083

(3)

Unit-III (इकाई-III)

7. When does a sale or purchase of goods take place in the course of inter state sale? Explain its exception.
- कब माल का क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान माना जाता है? इसके अपवाद भी बताएं।
8. When does a sale or purchase of goods take place as (a) subsequent sales (b) in the course of import or export from India?
- किस समय माल का क्रय-विक्रय (a) पश्चातवर्ती विक्रय (b) भारत में आयात एवं भारत से निर्यात के दौरान हुई मानी जाती है?
9. Write notes on the following:
- निम्न पर टिप्पणी लिखें:
- (a) Goods
माल
 - (b) Place of Business
व्यवसाय का स्थान
 - (c) Intra state sale
राज्य में बिक्री
10. How will you determine the taxable turnover under Central Sales Tax Act.
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में कर योग्य आवर्त (Turnover) का निर्धारण आप कैसे करेंगे?

21083